

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LTD.

SHAMELL - 247 776 (UP), TEL - (01398) 250064, 250082, FAX - UL19X - 250032, E-MAIL: udsm_shamilragsify.com

CIN No.L51909DL1933PLC009509 E-mail:udsm_shamli@sirshadilal.com, Website:www.sirshadilal.com

REGISTERED

08.02.2021

The Department of Corporate Affairs BSE Limited 25th Floor, P.J. Towers, Dala! Street, Mumbai - 400 001

SCRIP CODE NO. 532879

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith Clippings of the newspapers viz. The Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) both dated 07.02.2021 in which abstract of unaudited Financial Results of the Company for the quarter and Nine months ended 31.12.2020 were published.

Kindly acknowledge receipt of the same,

Thanking you,

Yours faithfully, for Sir Shadi Lal Enterprises Limited

(Ajay Kumar Jain) Company Secretary

Encl.: As above

FE SUNDAY

NOTICE BOARD

CORPORATE ASSOCIATE DIARY APPOINTMENTS, MOVEMENTS, CELEBRATIONS, HONOURS



V Anand, MD, LIC presented Certificates of Honour to Motormen, Technical Staff & Security Officers of CR, Mumbai in presence of V Rao, ZM, LIC, Western Zone & R Nair, ED, Corp. Comm. & S Goel, DRM, CR.



CSR-POSOCO

Shobha Rani, President, POSOCO's Agrini Mahila Samiti handed over two Sanitary Napkin Vending Machines to Salwan Girls Sr. Sec. School, New Delhi, under Swachhta Action Plan to promote menstrual health and hygiene.



CSR-NTPC

MoU was signed between DJawalkar, Secy Tourism, Govt. of Uttarakhand & MSD Bhattamishra, ED (CSR/R&R/LA), NTPC in the presence of DK Patel, Dir. (HR), NTPC, for the redevelopment of civic amenities worth Rs 25 crores in Kedarnath



INAUGURATION - CRPF

MLA Kumari Akoljam Mirabai Devi, Patsoi, A. Cinaugurated huts and toilets with running water facility at the Langling Achouba, hill top constructed by 87 BN, CRPF under the aegis of IGP, M&N Sector, CRPF.



TRIBUTE - PNB

PNB celebrated the 1 56th birth anniversary of its founding father, Lala Lajpat Rai, at New Delhi, CH, SS Mallikarjuna Rao, MD & CEO along with EDs and other senior officers paid tribute to Lala Laipat Rai by garlanding his bust.



LAUNCH - INDIAN BANK

The official language magazine of Delhi South was released by the CMD Padmaja Chunduru, in the presence of Mr. Karthikeyan, GM, CO; V Kumar, FGM, Delhi, and other officials.



Sudha Singh, President, NHPC Ladies Welfare Association along with other members of the Association distributed dry ration among needy people affected by the COVID-19 pandemic at Santosh Nagar, Faridabad



EVENT-NIIMS

NIIMS conducted their auspicious Hawan Poojan in welcoming the batch of 150 MBBS students. The event was graced by Jaivir Singh, Founder - NIU, Raj Kumari Chauhan -Former Member of Parliament, Dr Devesh, Chairman - NIIMS.

APPOINTMENTS

PLL Akshay Kumar Singh

(Pipelines). He had also served as an Executive Director in GAIL India Limited in Projects division before Indian Oil Corporation Limited. Singh has vast experience and has made significant contributions in the last 35 years to the Petroleum & Natural gas sector in India.



in India. He was also LIC HFL's Chief Operating Officer. Mohanty started his career as a direct recruit officer with LIC of India in 1985 and has risen through the ranks to this senior position. Before joining LIC HFL, he was Executive Director-Legal with LIC of India.

TCIL Sanjeev Kumar has joined as CMD, TCIL on 27.01.2021. Earlier, Kumar was working as Director (Technical), MTNL During his tenure in MTNL, Kumar had greatly contributed in the areas of Network Planning & Oper-

inaccessible areas of the country. Project Management, Human Resource Management, Business Development, Sales & Marketing, Customer Relationship and Regulatory issues, Exploring Green Field Fixed and Mobile licensing opportunities in Overseas Marketing. Merger and Acquisition and handling independent business units have been his forte.

ICSI for the term 2019-2022

as Vice-President of ICSI. A Fellow Member of the ICSI & a Post Graduate in Commerce from Pune University. He was elected to the Central Council of the ICSI for the term 2019 - 2022.

JDS FINANCE COMPANY LTD.

CIN:L65999DL1984PLC018035

Regd. Office: 307, Lusa Tower Azadpur

Delhi - 110033

Tel No. 01140424242

Email Id info@jdsfinance.in

Website: www.jdsfinance.in

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29

read with Regulation 47 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosures Requirements)

Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of

Directors of the Company will be held on

Saturday, 13" February, 2021 at 5:00 P.M.

through video conferencing inter-alia to consider

& approve the Un-Audited Financial Results for

Further, in terms of Internal code of conduct for

prevention of Insider Trading in dealing with

securities of the Company, the Trading window

for transactions in the securities of the Company

has been closed since 1" January, 2021 for

insiders for the purpose of announcement of

The said notice may be accessed on the

Company website and may also be accessed at

For JDS Finance Company Ltd.

Ajay Jain

the Quarter year ended 31" December, 2020.



Substation at Narela Industrial Hub in Delhi. The newly commissioned substation will benefit over 2000 industrial units in Narela and the adjoining areas. The grid substation was inaugurated by Satyendar Jain, Power Minister, Govt. of NCT of Delhi in the presence of SK Chauhan, MLA, Narela and Ganesh Srinivasan, CEO, Tata Power-DDL. Among others present at the event were senior officials from General Electric (GE), the technology partner for the project.

Tata Power-DDL commissioned a 66/11 KV GIS Grid

BSNL has launched a new-age, tech-enabled single subscription video streaming platform YuppTV Scope. This service is launched in partnership with M/s YuppTV, wherein BSNL is offering bundled OTT services to broadband and FTTH subscribers as a triple play offering. PK Purwar, CMD, BSNL, said, "BSNL is delighted to collaborate with YuppTV in the launch of the next-generation, tech-driven content curation platform Yupp TV Scope. We believe that the platform will revolutionize content consumption in the country and further usher in the era of OTT."

BRPL has been awarded the coveted Golden Peacock Award 2020 for 'Occupational Health & Safety'. It is the only DISCOM in the county to be selected for this prestigious award under the category this year. It was received by the BRPL CEO Amal Sinha in an online ceremony recently. Those present on the occasion included Arjun Ram Meghwal, Union MoS for Parliamentary Affairs and Heavy Industries and Public Enterprises; Anurag Thakur, MoS for Finance & Corporate Affairs; and Girish Chandra Murmu, CAG of India.

ITPO The 5-day flagship event of the ITPO, AAHAR 2021 — the International Food & Hospitality Fair (April 6 - 10, 2021) — is being hosted with a discounted rate of 45 per cent on participation charges to support the Indian industry. The 36th edition of the fair focusses on emergence of India in F&B as well as hospitality services, including food processing, culinary tech, retail and new innovations. This B2B event is being organized with health safety measures at the new IECC HALLS, Pragati Maidan.

IRCTC is getting the tremendous response of the public and people are coming in large numbers to book the IRCTC Tour Packages, IRCTC's Air tour packages for Kerala, Goa, Kashmir, Andaman, Rann of Kutch in Gujarat & North East region launched for Feb & March months from different cities are fully booked & hence additional tours are being launched. IRCTC has decided to run a Deluxe AC Tourists train on two different tours viz "Padharo Rajasthan" & "Jyotirlinga & Statue of Unity". The "Padharo Rajasthan" tour will start from Delhi Safdarjung on date 12.02.2021. Second Tour of "Jyotirlinga & Statue of Unity" will also start from Delhi Safdarjung on date 27.02.2021

IndianOil PM Narendra Modi will be dedicating to the nation key infrastructure projects in the oil and gas sector and road sector in West Bengal in a public function to be held in Haldia on 7th Feb 2021, HE Jagdeep Dhankar, Governor of West Bengal; West Bengal CM Mamata Banerjee & other dignitaries are also invited to grace the event. On the same occasion, PM Modi would also lay the foundation stone of the second catalytic dewaxing unit at the Haldia Refinery of IndianOil

VISHVAS PROJECTS LIMITED

(Formerly Known as Mefcom Agro Industries Ltd.)

Reg. Office: Flat- 1106, 1111 Floor Padma, Tower-I.

Raiendra Place, New Delhi – 110008

CIN NO: L65921DL1983PLC016382

Email id: mefcomagro2007@yahoo.com

Notice is hereby given that a Meeting of the Board of

Directors of the company will be held on Saturday, 13

February, 2021 at the Registered Office of the compan

to consider and approve the unaudited Financial Results

for the Quarter Ended on 31st December, 2020, Pursua

to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligatio

A copy of the said notice shall also be available at th

company's website www.vishvasprojects.com and or

(Formerly Known as Mefcom Agro Industries Ltd.)

DATE: 06.02.2021 KISHORI PRASAD GUPTA

For VISHVAS PROJECTS LIMITED

Last Notice Sent

stock Exchange website www.bseindia.com

PNB PNB While welcoming the measures announced by Finance Minister in Union Budget 2021-22, CH SS Mallikarjuna Rao, MD&CEO, PNB said, "The budget rightly strikes a reasonable balance between addressing the key pillars of Health & Well-being, Inclusive Development, Human Capital, Innovation and R&D, apart from laying the path for a robust economy by providing a major infrastructure boost. As far as the financial sector is concerned, further recapitalization of Rs 20,000 crore for PSBs in the FY 2021-22 is a welcome step.

SCOPE believes that announcements by the Finance Minister shall pave way for a faster rebound of the Indian economy on the growth path. Atul Sobti, DG, SCOPE said that the Union Budget shall further affirm the positive boost to the previous reforms announced by the Govt. He complimented the Budget proposals giving thrust to Atmanirbhar Bharat mission by focussing on critical growth sectors like infrastructure, power roads, ports and health. Govt. has given a much needed boost to Indian economy to retrace the development path and reposition it on the global map, he added.

NSC has paid a dividend of Rs. 8.98 Crores to the Gol which is 30% of PAT. The dividend Cheque was presented by VK Gaur, CMD, NSC to Agriculture & Farmers Welfare and Panchayati Raj Minister Narender Singh Tomar. On this occasion, Kailash Choudhary, Ministers of State for Agriculture & Farmers Welfare and Sanjay Agarwal, Secretary, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Government of India along with other Senior Officers were also present.

IRCTC is all set to restart the operation of its fleet of the first Corporate Train, Tejas Express trains (Lucknow-New Delhi & Ahmedabad-Mumbai) to cater to the growing passenger demand. Both the trains are to restart operations from 14th February, 2021.

IRFC Indian Railway Finance Corporation Limited (the "Issuer" or "IRFC"), the dedicated market borrowing arm of the Indian Railways, on 3rd February, 2021, priced its USD 750,000,000 bonds based on a Rule 144A / Regulation S offering format under IRFC's recently updated USD 4 billion global medium term note programme. The bonds will be issued on 10th February, 2021 for a tenor of 10 years at a fixed rate of 2.80%. The bonds carry semiannual interest payment and bullet principal repayment.

SAIL has declared its financial performance results for Q3 FY21 and nine months (9M FY21), both ending 31st December, 2020. SAIL registers Rs 3645 Crore Profit Before Tax during Q3 FY21 marking a substantial growth over CPLY. Soma Mondal, Chairman, SAIL, commented, "SAIL has shown overall improvement during the current financial year despite all the challenges. With the focus on seizing opportunities, the company has geared up to service the rising steel demand in the market as soon as the gradual opening of lockdown started. As we look ahead, we are confident of improving the performance further in the remaining period of the financial year."

EVENTS, ANNOUNCEMENTS, LAUNCHES, CSR INITIATIVES, APPOINTMENTS, MOVEMENTS, CELEBRATIONS

State Bank of India 🕡 भारतीय स्टेट बैंक STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH-II 18/4, 3RD & 4TH FLOOR, SBI HOUSE, ARYA SAMAJ ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI-110 005

E-MAIL: SBI.51521@SBI.CO.IN POSSESSION NOTICE (UNDER RULE 8(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002) Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest

Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, a demand notice was issued on the dates mentioned against each account and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the

section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Act on the dates mentioned against each account. The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the

undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under

property will be subject to the charge of the STATE BANK OF INDIA for an amount and interest the reon. The borrowers' attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem

the secured assets. Name of Account Amount Name of Proprietor/ Description of the property Date of

Property, South: Passage,

West: Other Office, East: Passage

SHADI LAL ENTERPRISES LTD.

CIN NO.L51909DL1933PLC009509

Regd. Office: 4-A, Hansalaya, 15, Barakhamba Road New Delhi 110 001

Phone No.011-23316409, 23310414 Fax No. 011-23322473

Email: udsm_shamli@sirshadilal.com : website www.sirshadilal.com

Abstract of Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended 31st December, 2020

13729.48

(+) 67.52

525.00

-29.921

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under

2. 2. The above result have been subject to "Limited Review" by Auditors of the Company and have been reviewed and

recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 6th February, 2021.

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the

Quarterly Financial Results are available on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com and the Company's

Quarter ended

9754.22

(+) 12.93

525.00

-41.379

Owner of property etc. KSBL Securities Ltd. (M/s Kumar Share Brokers Ltd.) (Borrower), Sh. Ramesh Chand Arora S/o Sh. LuxmanDass Arora (Director), Smt. Suman Arora Wlo Sh. Ramesh

Khare (Director)

Borrower & address

Arora S/o Sh. (Director), Smt. Suman Arora W/o Arora (Director) and Sh. Tika Ram Chand Arora (Director) Khare S/o Sh. and Sh. Tika Ram Khare Bridavan Prasad S/o Sh. Bridavan Prasad Khare (Director)

PLACE: NEW DELHI, DATE: 03.02.2021

Particulars

Net Profit(+)/Loss(-) for the period [before tax,

Net Profit(+)/Loss(-) for the period before tax

[after Exceptional and/ or Extraordinary items]

[after Exceptional and/ or Extraordinary items]

Net Profit(+)/Loss(-) for the period after tax

Total Comprehensive Income for the period

((Comprising Profit and other Comprehensive

Earning per share (not annualized of Rs. 10/-)

website at www.sirshadilal.com

Exceptional and/ or Extraordinary items]

Total Income from Operations

Other Comprehensive income

Paid-up Equity Share Capital

income for the period

Basic and Diluted

Place: New Delhi

Note:

Partners/Guarantors/

mortgaged/charged

Date of Demand

31.12.2020 30.09.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.03.2020

(-) 1570.87 (-)2 172.38 (-) 626.14 (-) 3571.06 (-) 632.52 (+) 285.72

(-) 1570.87 (-)2 172.38 (-) 626.14 (-) 3571.06 (-) 632.52 (+) 285.72

(-) 1570.87 (-)2 172.38 (-) 626.14 (-) 3571.06 (-) 632.52 (+) 285.72

(-) 1503.35 (-) 2185.31 (-) 630.92 (-) 3576.34 (-) 507.62 (+) 384.91

(-) 4.78

525.00

-11.926

11363.78

40771.64

Sh. Ramesh Chand All that part and parcel of Third Floor 02.09.2020 03.02.2021 Rs.1,40,49,180.51 and open terrace with common LuxmanDass Arora staircase from Ground Floor onwards. The property bearing No. G-55 Plot No. 33, covered area 1400 Sh. Ramesh Chand Sq. Ft. part of Khasra No. 75, situated at Village Khureii Khas ir the abadi of G-Block, Laxmi Nagar, Vikas Marg, Delhi North: Other

Outstanding Possession

AUTHORISED OFFICER, STATE BANK OF INDIA

stock exchange website as on 01.09.2020 (Rupees One Date: 06.02.2021 Crore Forty Lacs Forty Nine Thousand One

(Rs. In Lacs)

Accounting

Year ended

49824.78

(+) 99.19

525.00

+5.442

(Rajat Lal)

DIN:00112489

Managing Director

Nine Months ended | Previous

38856.25

(-) 5.28 (+) 124.90

525.00

-12.048

525.00

-68.020

Managing Director PROGRESSIVE FINLEASE LIMITED CIN: L65910DL1995PLC064310 Hundred Eighty Regd. Office: S-2 Ground Floor, Plot No.- A-2/3, Lusa Tower, Azadpur, Delhi-110033 and paise Fifty Tel No. 01140424242, one Only)

Email Id info@progressivefinlease.in Website: www. progressivefinlease .in

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held or Saturday, 13" February, 2021 at 4:00 P.M. through video conferencing inter-alia to consider & approve the Un-Audited Financia Results for the Quarter year ended 31' December, 2020, Further, in terms of Interna code of conduct for prevention of Insider Trading in dealing with securities of the Company, the Trading window for transactions in the securities of the Company has been closed since 1"January, 2021 for insiders for the purpose of announcement of aforesaid results. The said notice may be accessed on the Company website and may also be accessed at stock exchange website.

For Progressive Finlease Ltd. Date: 06.02.2021 Rajeev Jain Place: Delhi Managing Director

SAI INDUSTRIES LIMITED Regd. off: 302, 3" Floor, C-2/4, Community Centre, Ashok Vihar, Phase-2 New Delhi-110052 CIN: L74999DL1991PLC045678 Email: salindustries1609@gmail.com

NOTICE Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12" February, 2021 at 5:00 P.M. through video conferencing inter-alia to consider & approve the Un-Audited Financial Results for the Quarter year ended 31" December, 2020. Further, in terms of Internal code of conduct for prevention of Insider Trading in dealing with securities of the Company, the Trading window for transactions in the securities of the Company has been closed since 1"January, 2021 for insiders for the purpose of

announcement of aforesaid results. The said notice may be accessed on the Company website and may also be accessed at stock exchange website. For SAI INDUSTRIES LIMITED

Kriti Ahuja Date: 06.02.2021 Company Secretary and Place: Delhi Compliance Officer

NEGOTIUM INTERNATIONAL TRADE LIMITED (Formerly Known as Mahadushi Regd. Office: 3/12, Ground Floor, Asaf All Road, Delhi- 110002

Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Saturday, 13th February 2021 at the Registered Office of the company to consider and approve the Unaudited Financial Results or the Quarter ended 31" December, 2020. ursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEB isting Obligations and copy of the said notice shall also be available at the ompany's website www.mahadushiinternational.com

and on stock Exchange website www.bseindia.com For Negotium International Trade Limited (Formerly Known as Mahadushi International Trade Ltd)

> East Delhi Region, Plot No.19 & 31, Community Centre,

Notices to Lockers Holders-Bank of Baroda Defaulters in Payment of Rent of Lockers

This is for the information of our valued patrons, who have taken lockers on rent at Sadar Bazar branch of bank and have committed breach of agreement. The notices sent as per the RBI/Bank's guidelines to the Renter's at their recorded addresses have been returned undelivered. Efforts to contact the locker holders' in person and their recorded addresses have also gone in vain and their present whereabouts could not be ascertained.

Thus having no alternative, this notice is being given to all the persons named below for contacting Sadar Bazar branch and to clear the dues of the Bank within a period of 7 days from the date of publication of this notice, failing which the bank will proceed to break open the locker at their cost, risk and responsibility and the Bank will exercise its right of lien for recovery of outstanding rent, costs and other charges, qua this exercise

Locker No. Rent Overdue

No.			Since	
1	Vacant	G146	01-01-2006	N. A
2	Kamleshwari Garg & R P Garg	G150	N.A.	16-12-202
3 -	Vacant	E015	26-06-2013	16-12-202
4	Vacant	E035	N.A.	16-12-202
5	Vacant	E039	N. A.	16-12-202
6	Rita Gambhir & Sham Lal Khurana	E050	25-05-2004	16-12-202
7	Abdul Hamid warsi	KH01	30-12-2000	16-12-202
8	Anil Bansal	KH08	28-02-2004	16-12-202
9	Mohinder Prasad & Usha Devi	KH19	28-10-1989	16-12-202
10	Kirori Mal Goyal & Basanti Devi	KH24	1-12-1992	16-12-202
11	Virender Kumar Bhatia	KH25	6-8-2000	16-12-202
12	Surinder Khanna & Santosh Khanna	KH27	10-4-2008	16-12-202
13	vacant	KH30	1-12-2010	16-12-202
14	Satpal Sharma	KH31	9-3-1993	16-12-202
15	vacant	KH40	N. A.	16-12-202
16	Mohan Lal Ashok Kumar	KH42	4-7-2004	16-12-202
17	Surinder Singh	KH45	13-12-1993	16-12-202
18	Vacant	KH46	2-9-1989	16-12-202
19	Devender Kumar & Sudha Jain	KH54	1-1-2019	16-12-202
20	Suresh Singh & Mohini	KH56	28-10-1998	16-12-202
21	R K Gupta	KH58	22-9-1999	16-12-202
22	Subhash Dawar	KH62	14-3-2001	16-12-202
23	Vijay Bhatia	KH68	22-6-2007	16-12-202
24	Nirmal Seth & Nikhil Seth	KH71	8-12-2006	16-12-202
				REGIONAL HEA

'IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on

| State Bank of India 🞧 भारतीय स्टेट बैंक Stressed Assets Recovery Branch, 3rd &4th floor, State Bank House, 18/4 Arya Smaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005

Tel.011-28752163 Fax. 28755674 Branch e-mail: sbi.51521@sbi.co.in CORRIGENDUM Corrigendum is in reference to the publication of comigendum published in Financial Express Newspaper dated 06.02.2021 regarding NOTICE: MEGA E-

AUCTION DATED 05.03.2021 Please read "Earnest Money (EMD)" in place of "Reserve Price" (printed wrongly in corrigendum) regarding property at SL NO. 9 pertaining to ANG GLOBALS Hence actual Reserve price is Rs.37.27 lacs and Earnest Money (EMD) is

Please read "Earnest Money (EMD)" in place of "Reserve Price" (printed wrongly

in corrigendum) regarding property at SLNO, 10 pertaining to Sh Sanjeev Gupta. SmtAlka Gupta, Sh Abhinav Gupta and Mrs. Malvika Gupta. Hence actual Reserve price is Rs. Rs.231.51 lacs and Earnest Money (EMD) is Rs.Rs.23.16 lacs. All other terms and conditions will remain the same.

Date 06.02.2021 Authorised Officer,

Place: New Delhi SBI, SARB-II, Karol Bagh, New Delhi (BRANCH CODE 51521) SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

Regd. Office: 4883-84, Second Floor, Main

Road Kucha Ustad Dag, Chandni Chowk,

CIN:L74899DL1985PLC020194

Email:amarnath01finance@gmail.com

Contact: 011-23953204

Pursuant to Regulation 47(1)(a) of SEBI

(LODR) Regulation,2015,notice is hereby

given that a meeting of Board of Directors of

the Company has been scheduled to be held

on Friday, the 12th February, 2021 to

consider and approve the un-audited

Financial Results for the quarter and Nine

The said notice can be accessed at

Company's website at http://

www.sriamarnathfinance.in

indext39a.html?event=Board%20Meeting%20Notice

and also on BSE website at www

SURYA INDIA LIMITED

CIN- L74899DL1985PLC019991

Regd. Office: B-1/F-12, Mohan Co-operative

Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-44.

Tel: +91 11 45204100

Email: cs@haldiram.com Website: www.suryaindialtd.com

Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 47 read with Regulation 29 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure)

Requirements) Regulations, 2015, the meeting

of the Board of Directors of the Company is

scheduled to be held on Saturday, 13"

February, 2021 at 05:30 P.M. at the Registered

Office of the Company inter alia, to consider

and approve the Unaudited Financial Results of

the Company for the quarter and nine-month

For Sri Amamath Finance Limited

month ended on 31st December, 2020.

Classifieds

PERSONAL

I, Mukesh Kumar S/o Chhabil Dass R/o WZ-374-C Upper Ground Floor Gali No-2 Shri Nagar, Rani Baghi, Delhi have changed my name as Mukesh Kumar Aggarwal permanently

PROPERTY FOR SALE

Buying Selling High End Luxury properties in Delhi NCR Mumbai, Chandigarh Handle disputed Properties Contact: 93162-55513, Email: nriservices21@gmail.com 0020417417-1

(Rakesh Kapoor) Place: Delhi (Managing Director) Date: 06.02.2021

bseindia.com.

For All Advertisement Booking

New Delhi

For the above mentioned purpose, Trading Window period for dealing in the securities of the Company had already been closed from 1' January, 2021 up to 48 hours after the declaration of the unaudited financial results as stated aforesaid pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended from time to time. This information is also available on the website

period ended on 31" December, 2020.

shares of the company are listed and is also available on the website of the Company (www.suryaindialtd.com) For Surya India Limited Date: 06.02.2021

of BSE Limited (www.bseindia.com) where the

Place : New Delhi (Jitesh Grover) Company Secretary& Compliance Officer M. No. F-7542

financialen, epan, in

Dated: 6th February,2021

for Sir Shadi Lal Enterprises Ltd.

took over charge of Petronet LNG Limited (PLL) as MD&CEO w.e.f. 01.02.2021. Prior to this, Singh was working with Indian Oil Corporation Limited as Director

LIC Siddhar tha Mohanty has recently taken charge as Managing Director of LIC of India. Prior to this, he was Managing Director & Chief Executive Officer of LIC Housing Finance Limited (LIC HFL), one of the largest housing finance companies

ation, Deployment of Telecom facilities in Remote and

ICSI CS Nagendra D Rao, elected as President of ICSI for the year 2021. He is a Law Graduate from University of Mumbai and has a Bachelor's Degree in Commerce, He is a Designated Partner and Founder of CS Nagendra D. Rao and Associates, LLP. He was elected to the Central Council of the

ICSI CS Devendra V Deshpande, elected



100,000

CIN: L74999DL1994PLC062446

Date: 06-02-2021 Place: New Delhi WHOLE-TIME DIRECTOR

) वैक ओफ़ बड़ीदा Bank of Baroda 130 GE

Preet Vihar, Delhi-110092

PLACE: NEW DELHI

advertisement in any manner whatsoever.

सशक्तिकरण सुनिश्चित करने वाला और

'आत्मनिर्भर भारत' का द्योतक है।

उन्होंने कहा कि बजट जरूरतमंद तबकों

के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक

सशक्तिकरण के संकल्प से भरपर है।

सरकार ने सभी विधायकों को टैबलेट खरीदने का दिया निर्देश

लखनऊ, ६ फरवरी (भाषा)

सार्वजनिक सूचना

मैं देविंदर पाल चौहान पुत्र स्वं. श्री

हरि किशन चौहान, पीएनबी,

सर्कल सस्त्रा सेंटर, साउथ दिल्ली,

ऊपरी भूतल, बी.सी प्लेस, नई

दिल्ली - 110066, जिनका

दस्तावेज जीबीपीए-20660.

एलआर नं. 833606 / 2020 खो

गया हैं। यदि किसी को मिलता तो

एमको इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यासय : 10795, शॉप नं. 7, जीएफ, झंडेवालान

रोड, रेक्सीन बाजार, नबी करीम, नई दिल्ली-110055

CIN: L74899DL1987PLC029035

कोन न : 011 - 23636320 ई-मेल : amco.india@ymail.com

वेक्साइट : www.amcoindialimited.com

सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूत एव

विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए)

विनियमावली, 2015 के विनियम 29 एवं 33 के अनुसरण

में कम्पनी के निदेशक मदल की बैदक शुक्रवार, 12

फरवरी, 2021 को सी-53-54, सेक्टर-57, फेज-III,

जिला गौतमबुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301.

रिश्चत कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय में आयोजित की

जाएगी, जिसमें, बन्य विषयों के साथ, 31 दिसम्बर,

2020 को समाप्त तिमाही और नौ महीने हेत् कम्पनी के

अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित

www.amcoindialimited.com, और बीएसई लिमिटेंड

की वेबसाइट www.bseindia.com. पर भी उपलब्ध

रेम्सन्स प्राजिक्ट्स लिमिटेड

पंजी. कार्या:: s1s, sवॉ तल, हेमकुन्ट चैम्बर्स, s9,

नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

Website: www.ramsonsprojects.com

Email ID: corp relations@ramsonsprojects.com

सेबी (स्चीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन

2015 के विनियमन 47 के साथ पिटत विनियमन 29 के

अनुपालन में एतदहारा खचित किया जाता है कि कम्पनी के

निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021

को कम्पनी के कॉपॉरैट कार्यालय एसएएस टाक्स, सेक्टर-

38, गुड़गाँव-122001 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य

विषयों के अलावे 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के लिये

अनमोदन किये जाएंगे तथा अध्यक्ष की अनमति से किसी

इस सूचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाईट

(www.ramsonsprojects.com) तथा साथ ही स्टॉक

एक्सचैंज की वेबसाईट (www.besindia.com) पर भी

प्रपत्र सं आइएनसी-26

कियनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे

राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में

प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

कंन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक

के समझ उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली बेंच

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा

(4) और कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के

उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में

गैसर्स केठीआइलैंड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : फ्लैट नंबर : केडी-189,

पीतमपुरा, नई दिल्ली नॉर्थ दिल्ली दिल्ली – 110034 में

आग जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की

गरा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती हैं

जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय शब्दीय

राजवानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा सज्य" में स्थानांतरित

करने के लिए **तारीख बुधवार 25 नवम्बर, 2020** को

आयोजित जसाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष

संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंद्रम ऑफ एसोसिशन

कंपनी के रजिस्टीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर

एमसीए-21 पोर्टस (www.mca.gov.in) में शिकावत

दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित

का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित ही

के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निर्देशक को इस सूचना

के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के गीतर बी-2 विंग

द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नद

दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत ठाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति

आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्टीकत कार्यालय

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : फ्लैट नंबर : केंडी-189.

पीतमपुरा, नई दिल्ली नॉर्थ दिल्ली दिल्ली - 110034

कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व का एमटेक इण्डिया लिमिटेड)

सीआईएन: L65921HR1983PLC033789

पंजीकृत कार्यालयः ग्राम नरसिंहपुर, मोहम्मद्पुर

ओल्ड मानेसर रोड, गुरुग्राम, हस्थिाणा- 123100

एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048

दुरभाष: +91-11-42344444

फैक्स: +91-11-42344400

ई-मेल: info@amtek.com;

वेबसाइट: www.amtek.com

सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ)

विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित

विनियम 29 के अनुसार, एतहारा सुचना दी जाती

है कि श्री दिनकर टी, वेंकटसुब्बस्मण्यम (आईपी

पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-

P00003/2016-17/10011) (समाधान

प्रोफेशनल) अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही

के अनंकेक्षित स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय

परिणामों पर शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को

कथित सुचना कम्पनी की वेबसाइट तथा बीएसई

की वेबसाइट http://www.bseindia.com

<u>नेबसाइट</u>

तहत कम्पनी)

दिव्या रिजवानी

कम्पनी सचिव

के अनुगोदन से निर्गत (समाधान प्रोफेशनल) स्थानः मुम्बई

तिथि: 5.2.2021

एनएसई की

http://www.nseindia.com पर देखी जा

कृते कारटेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(कॉरपोरेट ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया के

श्री दिनकर तिरुवान्नदापुरम वोकटासुब्रह्मण्यम

आईपी पंजीकरण सं IBBI/IPA-001/

स्थानः नई दिल्ली

तिशि: 6.2.2021

IP-P00003/ 2016-17/ 10011

विचार तथा अनुमोदन करेंगे।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 05.02.2021

मैसर्स केबीआइलैंड इंडिया प्राईवेट लिमिटेर

आवेदक की ओर से

ढीआईएन : 02454069

Etal / करण देसवाल

में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई हैं।

रैम्सन्स प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड के लिये

इस्ता./

मेघा गौवल

कम्पनी सचिव

अन्य विषय पर विचार की जाएगी।

उपलब्ध है।

स्थानः गुरुग्राम

तिथि: 06.02.2021

बास्ते एमको इक्षिया लिमिटेड

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता

पूर्ण कालिक निवेशक

यह सूचना कम्पनी की देवसाइट

किए जाएंगे।

स्थान : नोएडा, यू पी.

दिनाक : 04.02.2021

उपरोक्त पते पर वापस करें।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कागज रहित बजट सत्र के लिए विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों को 'टैबलेट' खरीदने के लिए कहा है।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि राज्य के सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को

हजार रुपए होगी, विधायक आईपैड खरीद सकते हैं, उन्हें इसका भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक आयोजित करेगा, जिसके लिए मंत्रियों को उचित राज्य सरकार के मंत्रियों ने इस संबंध में एक प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम में भाग लिया है और विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को बजट सत्र से पहले

कते कॉटिनेंटल पेटोलियम्स लिमिटेड

मदन लाल खण्डेलवाल (मैनेजिंग डायरेक्टर

इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। दो फरवरी को.

कॉटिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड

र्यजीव्हत कार्यालयः ए-२, उद्योग भवन कं सामने, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपूर-502005 (राजस्थान), प्योन : 0141-2222232

CIN: L23201RJ1986PLC003704, ई: मेल: cs.conpetco@gmail.com; conpetco@gmail.com, चेवमाईट : www.contol.in

भारतीय प्रतिभृति एवं विनियम मंडल (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की

बैठक शनिवार 13 फरवरी, 2021 को दोपहर 3:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी

जिसमें कंपनी के 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त होने वाले प्रेमासिक अलेखापरीक्षित विलीय परिणामों पर

विचार एवं उन्हें अनुमोदित किया जायेगा। पनश्च: कंपनी की प्रतिभृतियों के संबंध में आंतरिक दंडिंग की

रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी की प्रतिभतियों के लेनेटेन हेत टेडिंग विंडो

1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर 2020 के परिणाप घोषित होने के 48 पंटे तक बंद रहेगी। यह जानकारी कंपनी

की वेबसाईट अर्थात www.contol.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात बीएसई लिमिटेड

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है ।

प्ररूप संख्या यूआस्सी-2

अधिनियम के अध्याय XXI के माग 1 के तहत पंजीकरण

के संबंध में सुचना का विज्ञापन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और

कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014

के नियम 4 (1) के अनुसरण में)

. सुचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में रिनस्ट्रार

केंद्रीय पंजीकरण केंद्र, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के

संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर

5, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा को एव

आवेदन पंद्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की

अवधि की समानित के पहले प्रस्तावित है, की "मैसर्स

पदमश्री नरेंद्र मोहन शिक्षा समिति" एक सोसाइटी को

कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के

अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत

अ. पदमश्री नरेंद्र मोहन शिक्षा समिति के व्यवसाय को एक

ब. शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक धर्मार्थ और साहित्यिक

प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद झापन

की प्रतिलिपि का निरीक्षण मोहन नगर कर्मचारी

सहकारी समिति, सैक्टर 5, वसुंधरा, गाजियाबाद

-2018, उत्तर प्रदेश। स्थित कार्यालय में किया जा

सचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन

पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस पुचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर **रिनस्टार**

केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट

मामलों के संस्थान, (IICA), प्लॉट नंबर 6, 7, 8,

सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव

(हरियाणा), पिन ब्हेड- 122050, पर भेज दें तथा

इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकत कार्यालय पर भी

दिनांक: 06 फरवरी 2021

स्थान: गाजियाबाद

आवेदको के नाम

2. राहुल सिंह

3. संगीता शर्मा

1. सुनिल कुमार शर्मा

हस्ता/-

2. कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं:

चालित व्यवसाय के रूप में ग्रहण करना।

वस्तुओं को प्रदान करना और बढ़ावा देना।

स्थानः जयपुर

दिनांक: 06 फरवरी, 2021

आईपैड मिलेंगे। प्रत्येक आईपैड की कीमत लगभग 50 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि राज्य मंत्रिमंडल अगली बार एक ऑनलाइन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक **Indian Overseas Bank**

Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600002

RECRUITMENT OF SPECIALIST OFFICERS FOR INFORMATION SECURITY AND INFORMATION SYSTEM AUDIT IN MMG SCALE II & MMG SCALE III - 2020-21

Indian Overseas Bank, a leading Public Sector Bank with headquarters in Chennai having geographical presence all over India and abroad invites applications from eligible candidates, for the captioned

The detailed advertisement regarding the eligibility such as Qualification, Experience & Other requirements are available in the Bank's website www.iob.in under "Careers" page. APPLY ONLINE. Online Registration: 08.02.2021 - 20.02.2021

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LTD. CIN NO.L51909DL1933PLC009509

Regd. Office: 4-A, Hansalaya, 15, Barakhamba Road New Delhi 110 001 Phone No.011-23316409, 23310414 Fax No. 011-23322473 Email: udsm_shamli@sirshadilal.com : website www.sirshadilal.com

Abstract of Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended 31st December, 2020

Particulars	Quarter ended			Nine Months ended		Previous Accounting Year ended	
	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020	
Total Income from Operations	13729.48	9754.22	11363.78	40771.64	38856.25	49824.78	
Net Profit(+)/Loss(-) for the period [before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items]	(-) 1570.87	(-)2 172.38	(-) 626.14	(-) 3571.06	(-) 632.52	(+) 285.72	
Net Profit(+)/Loss(-) for the period before tax [after Exceptional and/ or Extraordinary items]	(-) 1570.87	(-)2 172.38	(-) 626.14	(-) 3571.06	(-) 632.52	(+) 285.72	
Net Profit(+)/Loss(-) for the period after tax [after Exceptional and/ or Extraordinary items]	(-) 1570.87	(-)2 172.38	(-) 626.14	(-) 3571.06	(-) 632.52	(+) 285.72	
Other Comprehensive income	(+) 67.52	(+) 12.93	(-) 4.78	(-) 5.28	(+) 124.90	(+) 99.19	
Total Comprehensive Income for the period ({Comprising Profit and other Comprehensive income for the period	(-) 1503.35	(-) 2185.31	(-) 630.92	(-) 3576.34	(-) 507.62	(+) 384.91	
Paid-up Equity Share Capital	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	
Earning per share (not annualized of Rs. 10/-) Basic and Diluted	-29.921	-41.379	-11.926	-68.020	-12.048	+5.442	

1. 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com and the Company's website at www.sirshadilal.com 2. The above result have been subject to "Limited Review" by Auditors of the Company and have been reviewed and

recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 6th February, 2021 for Sir Shadi Lal Enterprises Ltd.

(Rajat Lal)

Managing Director DIN:00112489

ऋण वसूली अधिकरण-Ⅲ, दिल्ली, 4शा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष ऋण वसली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वस्ली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के

Place: New Delhi

Dated: 6th February,2021

ओ.ए. नं. 313/2020 के मामले में यूबीआई (पूर्व में कॉपॉरेशन बैंक)

मयक सिंह तथा मुगेन्द्र प्रताप सिंह एवं अन्य

- प्रतिवादीगण डी-1. मर्यक सिंह एवं मुगेन्द्र प्रताप सिंह, निवासीः 421, ब्लॉक-सी, प्रगति विहार, होस्टल, लोदी रोड दिल्ली-110003 डी-2. मै. रुद्र बिल्डवेल प्रॉनेक्ट्स प्रा.लि., पंनीकृत कार्यालयः डी-53, ओखला फेन-1, नई दिल्ली-

110020 तथा कॉपॉरेट/ विपणन कार्यालयः ए-४६, सेक्टर-४३, नोएडा-२०१३०१

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सुचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 25.3.2021 को 10.30 पूर्वा. इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सनवाई तथा निर्णय आपकी अनपस्थिति में ही की जायेगी। वर्तमान में जारी महामारी की रिश्यति के कारण सभी मामलों पर विचार विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की

जायेगी तथा इस उद्देश्य से i) सभी अधिवक्ता/ वादीगण सिसको webexapplication/ software डाउनलोड करें,

ii) गुनवाई की अगली तिथि अर्थात रजिरट्रार/ रिकवरी अधिकारी-I तथा रिकवरी अधिकारी-II द्वारा विचार की जाने वाली मामलों के लिये मीटिंग आईडी तथा पारवर्ड डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात drt.gov.in पर सार्वजनिक सुचना शीर्ष के अंतर्गत आगामी तिथि के एक दिन पूर्व उपलब्ध होगी। iii) किसी प्रकार की आकरिमकताओं के लिये अधिवक्ता/ वादीगण फोन नं. 23748469 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 21 जनवरी, 2021 को दी गई।

अधिकरण के आदेश र सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली एस.सी.ओ. नं. 33-34-35, 1ला तल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़ आस्मी नं. 328/2019

बैंक ऑफ महाराष्ट प्रमाणपत्र धारक

ऋण वसली अधिकरण-II, चंडीगढ

मै. एस.बी. एण्टरपाईजेज आरदीदीबी एवं एफआई अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 के साथ पठित आयकर अधिनियम,

1961 के नियम 2 के अंतर्गत मांग सूचना मैं. एस.बी. एण्टरप्राईजेज, द्वारा उसके प्रॉप विजेन्दर अहलावत, पुत्र श्री सतपाल अहलावत, प्लॉट नं. 253, सेक्टर ६, आईएमटी मानेसर, गुड़गाँव, हरियाणा

2. विजेन्दर अहलावत, पुत्र सर्रपाल अहलावर, प्रॉप. मैं. एस.वी. एण्टरप्राईजेज, प्लॉट नं. 253, सेक्टर 6, आईएमटी मानेसर, गुड़गाँव, हरियाणा सी-202, चित्रकूट अपार्टमेन्ट, सेक्टर 22, द्वारका, नई दिल्ली, 2रा पताः विनेन्दर अहलावत, पुत्र सतपाल अहलावत, चित्रकृट अपार्टमेन्ट, सेक्टर 22, द्वारका, नई दिल्ली 3. मैं. टीएसएस एक्स्पोर्ट्स, प्रॉप. श्रीमती अंज् खन्ना, पत्नी श्री पी.एन. खन्ना, डी-45, नरायणा विहार, नई

4. श्रीमती अंज् खन्ना, पत्नी श्री पीएन खन्ना, डी-45, नरायणा विहार, नई दिल्ली माननीय पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी ओ.ए. नं. 1818/2017 में वसूली प्रमाणपत्र सं. 328/2019 के अनुसार

आप पर रु. 12,22,33,254,00 की राशि बकाया है। एतदहारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति से पन्द्रह दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें। उक्त राशि के अतिरिक्त आपको अधीलिखित का भी भुगतान करना होगाः

क. बसुली प्रमाणपत्र में आदेशानुसार ब्याज

ख. सुचना की सर्विस तथा बकाया राशि की वस्ली के लिये मेरे द्वारा शुरू की गई अन्य प्रक्रिया के सिलसिले में व्यय की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे आपको निर्देश दिया जाता है कि अपनी चल एवं अचल परिसम्मत्तियों को उद्घाटित करते हुए शपथ-पत्र के साथ 15.4.2021 को अधोहरताक्षरी के समक्ष उपरिश्रत हों। यदि उक्त तिथि को व्यक्तिगत/अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि सलाहकार द्वारा उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई कानून के अनुसार की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर चंडीगढ़ में 17.1.2021 को दी गई।

(रिकवरी अधिकारी)



भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड

SCI Navratna Company (ISO 9001:2015, ISO 14991 :2015 & ISO 45001:2018 Certified

(भारत सरकार का उद्यम)

"शिपिंग हाउस" 245, मादम कामा रोड, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 · Website: www.shipindia.com · Twitter: @shippingcorp CIN-No.: L63030MH1950GOI008033

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के अ-लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्रम सं.	विवरण		स्टैण्डएलॉन		समेकित		
		समाप्त तिमाही 31.12.2020 (अ-लेखा- परीक्षित)	समाप्त नौ महीने 31.12.2020 (अ-लेखा- परीक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अ-लेखा- परीक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2020 (अ-लेखा- परीक्षित)	समाप्त नौ महीने 31.12.2020 (अ-लेखा- परीक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अ-लेखा- परीक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	84,123	282,790	121,823	84,123	282,790	121,823
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	10,740	57,236	30,290	13,567	63,078	31,36
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	10,740	57,236	30,290	13,567	63,078	31,36
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	10,330	55,191	28,450	13,1 <i>5</i> 7	61,033	29,52
5.	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	\$100000 \$1000 300	56,998	28,591	12,409	59,893	31,01
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	46,580	46,580	46,580	46,580	46,580	46,58
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितौं के अतिरिक्त)	2573		-	877	85	9
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)						
	मूल	2,22	11.85	6.11	2.82	13.10	6.3

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल तिमाही/नौ महीने के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवारण प्रारूप का सार है। तिमाही/नौ महीने के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईटः www.shipindia.com पर उपलब्ध है।

11.85

2.22

ख) 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुपालन में हैं। ग) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 5 फरवरी, 2021 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये

भारतीय नौबहन निगम लि. के लिये श्रीमती एच.के. जोशी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (बित्त), अति. प्रभार DIN - 07085755

13.10

2.82

कार्गो मंजिल तक पहुँचाए. जीवन को राह दिखाए

कानपुर, ६ फरवरी (भाषा)।

आत्मनिर्भर भारत केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि 'केंद्रीय बजट का द्योतक : नकवी 2021-22' समाज के सभी तबकों का

केंद्रीय बजट

जटलिया ग्लोबल वैचसे लिमिटंड

(पूर्व का आशी इन्फोटेक लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः ३०७, लूसा टॉवर, आजादपुर,

दिल्ली-110033

सीआईएन: L74110DL1987PLC350280 वेबसाहट: www.jatalia.in,

ई-मेल आईडी: info@jatalia.in

द्रभाष: 011-40424242

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम,

2015 के विनियम 47 के साथ पिटत विनियम 29 वे

अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 31 दिसम्बर, 2021

को समाप्त तिमाही वर्ष के लिए अन्य बातों के साथ-साथ

कम्पनी के अलेखापरीक्षित विचीय परिणामी पर विचार तथ

अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक

शुक्रवार, 12 फरक्री, 2021 को 4.00 बने अप. वीडियो

पुनः कम्पनी की प्रतिभृतियों में लेन-देन में इनखाइडर ट्रेडिंग

की रोकशाम हेत कम्पनी की आन्तरिक खंडिता के खन्दर्भ मे

लेन-देन हेतु ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी, 2021 से उपर्युक्त

परिणामों की घोषणा के उट्देश्य हेतु इनसाइडरों के लिए बन्द

कशित सूचना कम्पनी की वेबसाइट http://jatalia.in/

तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

http://www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

कृते जटलिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड

(पूर्व की आशी रू-फोटेक लिमिटेड

कफ़िंसिंग के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

कर दी गयी है।

রিখি: 06.02.2021

स्थानः दिल्ली

एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड सीआईएनः L55101DL2007PLC157518

पंजीकृत कार्यालयः 6ठी मंजिल, आरिया टावर्स, जे डब्ल्यू मैरियट, नई दिल्ली एरोसिटी, एसेट एरिया 4, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, आईजीआई एअरपोर्ट के नजदीक, नई दिल्ली-110037, टेलीफोन: +91-011-41597315 ई-मेलः vivek.jain@asianhotelswest.com वेबसाइटः www.asianhotelswest.com

सूचना

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 13 फरवरी 2021 को, अन्य बातों के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों विचार एवं अनुमोदन हेत् आयोजित की जायेगी। सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.asianhotelswest.com एवं बीएसई लिमिटेड

(www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड के लिए

स्थान : नई दिल्ली अशु जैन कम्पनी संधिव दिनांक : 6 फरवरी, 2021

विवेक जैन कम्पनी सचिव

Indusind (1)

एससीओ नं ९९, प्रीन स्ववॉक्स मार्केट, टेलीफोन एक्सचैंज के निकट, हिसार एतदृद्वारा आम जनता तथा ऋणधारकों को सुचित किया जाता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी उक्त अधिनियम के प्रावधानों तथा प्रतिभृति

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

हित (प्रवर्त्तन) निक्मावली, 2002 (उक्त निक्मावली) के अंतर्गत तथा इस संदर्भ में अधोहरताक्षरी द्वारा निर्देष्ट की जाने वाली निक्मों एवं ऋतों के अधीन ''जैसा है जहाँ है आधार तथा जो भी वहाँ है आधार'' पर प्रतिभृत परिसंपत्तियों की बिक्री द्वारा 31.05.2017 को रु. 3,03,00,783.00 (रुपये तीन करोद तीन लाख सात सौ तिझसी मात्र) के प्रतिभृत क्रेडीटर के बकाए तथा 01.06.2017 से 11.15% प्रतिवर्ष की दर से आगे के ब्याज की वसुली का प्रस्ताव करते हैं। यहाँ नीचे वर्णित प्रतिभृत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए जनता से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। ईएमडी तथा बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 30 नवम्बर, 2018 के 11.30 बजे पूर्वा. तक। सार्वजनिक नीलामी की तिथि, समय एवं स्थान: मार्च, 2021 को 12.30 बने अप. में इंडसइंड बैंक लि., एससीओ नं. 99, ग्रीन स्ववॉयर माकेंट, टेलीफोन एक्सचैंन के निकट, हिसार में।

का 1. श्रीमती कृष्णा रानी 2. श्रीमती सविता देवी 3. श्रीमती सुनीता रानी 4. श्री मदन लाल 🛮 5. श्री प्रमोद कुमार 🖰 ६. श्र श्याम सुन्दर 7. श्री केशव गर्ग 8. श्री विनोद कुमार **प्रतिभृत - परिसंपत्तियो** 1. श्रीमती कृष्णा रानी के खामित्व में राम सिंह कॉलोनी, हाँसी, जिला हिसार में स्थित खेवत नं. 5571, खतौली नं. 7832 तथ का विवरण खसरा नं. 543/19/1 (3-0) में शामिल कुल भूमि माप 30के-0एम में भूमि माप 0के-08एम जो 8/60 शेयर है, पर निर्मित गोदाम में स्थित भिम एवं भवन का सभी भाग एवं हिस्सा। श्रीमती कृष्णा रानी के खामित्व में राम सिंह कॉलोनी, हाँसी, जिला हिसार में स्थित खेवत नं. 5572, खौतली नं. 7834 तथा खसरा नं. 543/18 (8-0), 19/2(2-12) में शामिल कुल भूमि माप 10के-12एम में भूमि माप 0के-6एम जो 26/212वाँ शेयर है, पर निर्मित गोदाम में स्थित भूमि एवं भवन का सभी भाग तथा हिस्सा। श्रीमती कृष्णा रानी के स्वामित्व में राम सिंह कॉलोनी, हाँसी, जिला हिसार में स्थित खेवत नं. 5568, खतोनी नं. 7289 में शामिल कुल भूमि माप 19के-18एम में भूमि माप 0के-6-2/3 एम जो 20/1194वाँ शेयर है, पर निर्मित गोदाम में रिथ्यत भूमि एवं भवन का सभी भाग तथा हिस्सा आरक्षित मृल्य रु. 32.00 लाख (रुपये बत्तीस लाख मात्र) ईएमडी : 3.20 लाख

1. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शतों तथा बोली प्रपत्र से शामिल निविदा दस्तावेज इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा इंडसइंड बैंक लि. एससीओ नं. 99, ग्रीनं रक्वॉक्र मार्केट, हिसार से प्राप्त की जा सकती है। पूछताछ के लिए इच्छुक बोलीदाता अधोहरताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी से 06.03.2021 को या उस से पूर्व 96542- 14923 से संपर्क कर सकते हैं। 2. इच्छूक बोलीदाता निविदा दस्तावेजों में यथा वांछित तथा दर्शायी गई दस्तावेजों के साथ विधिवत समर्थित इंडसइंड बैंक लि. के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पें

आर्डर के द्वारा यहां ऊपर वर्णित तिथि एवं समय को या उससे पूर्व उपरोक्त ईएमडी जमा कर सकते हैं। आरक्षित मृत्य से कम/बिना ईएमडी/क्वालिफायड/व्रतपूर्ण प्रस्तावों को अयोग्य कर दिया जाएगा।

4. इच्छुक व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी श्री विक्रम शर्मा से 96542-14923 पर संपर्क कर 05.03.2021 को 10 बने पूर्वा, से 2 बने अप. तक संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

5. प्रतिभत क्रेडीटर के प्राधिकत अधिकारी के पास प्रतिभत परिसंपत्ति का भौतिक कब्जा है तथा उन्हें/प्रतिभत क्रेडीटर को किसी भी अधिभारों की जानकारी नहीं है। लेकिन, इच्छ्क बोलीदाता अधिभारों, प्रतिभृत परिसंपत्तियों के टाईटल तथा प्रतिभृत परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकारों/बकायों की अपनी स्वतंत्र गणना कर लें। सार्वजनिक नीलामी का यह विज्ञापन प्रतिभृत केडीटर की किसी प्रतिनिधित्व अथवा किसी प्रतिनिधित्व का घटक नहीं मान

जाएगा। प्राधिकत अधिकारी एवं/अथवा प्रतिभृत क्रेडीटर किसी भी रूप में किसी भी अधिभार, चार्ज, सरकारी बकाए, उक्त प्रतिभृत परिसंपत्तियों पर थर्ड पार्टी के दावे, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे तथा वह संबंधि क्रेता के एकाकी उत्तरदायित्व के अधीन होगा। प्राप्त किए गए प्रस्तावों को इंडसइंड बैंक लि., एससीओ नं. ९९, ग्रीन स्ववॉक्स मार्केट के कार्यालय, हिसार में 03.03.2021 को 12.30 बने अप. में

अधोहरताक्षरी द्वारा खोलकर विचार किया जाएगा। जब प्रस्तावक उपस्थित रह सकते हैं तथा यदि वे ऐसा चाहें, यदि एक से अधिक बोलीदाता हो, इंटर रे बिडिंग द्वारा अपने प्रस्ताव में वद्धि कर सकते हैं। 7. जमा की जाने वाली बोली मुल्य आरक्षित मुल्य से ऊपर होगी तथा बोलीदाता रु. 1.∞ लाख के गुणकों में अपने प्रस्ताव में आगे सुधार कर सकते हैं।

8. सफल बोलीदाता को उपबंध (2) में वर्णित भुगतान की प्रक्रिया में नीलामी बिक्री कार्रवाई की पूर्णता पर तत्काल 25% बिक्री मुल्स (पूर्व प्रदत्त ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा। शेष क्रय मुल्य का भुगतान उन्हें सुचित की गई बिक्री की स्वीकृति/पृष्टि के 15 दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में खीकत विस्तारित अवधि में किया जाएगा। उक्त अविध में भुगतान में चुक करने पर बिक्री खतः रद्द हो जाएगी तथा धरोहर राशि के साथ सफल बोलीदाता द्वारा की गई संपूर्ण भुगतान जब्त कर

ली जाएगी। उक्त संपत्ति पर सफल केता का कोई भी दावा नहीं रहेगा तथा इंडसइंड बैंक लि. द्वारा कोई भी सुचना दिए बिना संपत्ति की फिर से बिक्री कर दी जाएगी। 10. नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के बाद असफल बोलीदाताओं की ईएमडी उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। सफल उच्चतम बोलीदाता के मामले में ईएमडी

उनकी बिक्री मुल्य में समायोजित कर ली जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी। 11. प्राधिकृत अधिकारी को यहां वर्णित बिक्री के संदर्भ में संपूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा प्रतिभृत क्रेडीटर के परामर्श के साथ लिया गया उनका फैसला ह समय मान्य होगा। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी

या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा सार्वजनिक नीलामी/ बिक्री को स्थिगत/ रद्द/ निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। नीलामी बिक्री की विफलता की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी को उसके बाद किसी भी समय निजी संधि द्वारा प्रतिभृत परिसंपत्ति की बिक्री करने का अधिकार प्राप्त है। 12. इस सचना तथा निविदा दस्तावेज के बीच किसी प्रकार की असंगति होने की स्थिति में निविदा दस्तावेज में वर्णित नियम एवं शर्तें लागु रहेंगे।

ऋणधारकों/गारन्टरों के लिए 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

ऋणधारक/ मार्टगैजर/ गारन्टर्स इसे 30 दिनों की बिक्री सुचना मानें। ऋणधारक/ मार्टगैजर/ गारन्टर को एतद् द्वारा इस बिक्री सुचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपनी उपरोक्त देयताओं को पूरी तरह से निष्पादित करने का अंतिम अवसर दिया जाता है जब वे प्रतिभृत परिसंपत्तियों की गिरवी को विमोचित कर राकते हैं अन्यथा ऊपर वर्णित नियमों एवं शतों पर प्रतिभत परिसंपत्तियों की बिक्री कर दी जाएगी। स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी इंडसइंड बैंक लिमिटेड

तिथि: 05.02.2021

गोबिंद शुगर मिल्स लिमिटेड ZUARI SUGAR.

CIN: L15421 DL1952PLC354222 पंजी. कार्यालय: बिरला मिल कॉम्प्लैक्स, पी. ओ. बिरला लाईन्स, जीटी रोड, नजदीक क्लॉक टॉवर, कमला नगर, उत्तरी दिल्ली-110007, वेबसाइट: www.zuarisugar.com ईमेल: ig.gsml@adventz.com, फोन: +91-124-4827800

दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौ महीनें के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का सार

(प्रति शेक्र डेटा को छोड़कर लाखों में)

31.03.2020 को 31.12.2020 को 31.12.2019 विवरण समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष को समाप्त तिमाही (लेखापरीश्रित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) 1. प्रचालनों से कुल आब 16,648.93 57,900.03 13,166.97 2 अवधि के लिए ग्रुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशेष तथा/या असाधारण 274.31 (3,506.34) (1,907.22) कर से पूर्व अवधि के लिए प्रुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष तथा/वा (741.03) (3,506.34) (1,907.22) असाधारण मदों के बाद) 4. कर के बाद अविध के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विश्लेष तथा/या (7,456.06) (1,378.74) (554.52) 5. अवधि के लिए कुल ज्यापक आय [अवधि के लिए (कर के (544.31) (7,418.98)(1,374.06) बाद) लाभ/(हानि) को शामिल करके तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] ६ भुगतान इविवाटी प्रोयर पंजी 447.30 447.30 447.30 7. आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार पुनर्गृत्वांकन (9,311.73) आरक्षितों के अतिरिक्त) आय प्रति शेयर (क् 10/- प्रति का) (वार्षिकी नहीं) (166.69) (30.82) (12.40) 1. मूल

2. तनुकृत टिप्पणी:

6.34

उपरोक्त विवरण सेबी (आपत्तियों के सचीकरण तथा अन्य प्रकटीकरण अपेक्षांए) विनियमनों, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल की गई दिनांक 31.12.2020 को समाप्त तिमाही और नौ महीनें के वित्तीय परिणामों का बिस्तुत सार है। कथित परिणामों के पुर्ण प्रारूप मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.msei.in) और कंपनी की बेबासाईट (www.zuarisugar.com) पर उपलब्ध है।

(12.40)

(166.69)

(30.82)

2. पूर्व अवधि के आंकड़ों को जहां जरूरी विचारा गया, पुनः एकत्रित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

3. कंपनी के निदेशक के बोर्ड ने दिनांक 17 जुलाई 2020 के संकल्प प्रस्ताव को जुआरी ग्लोबल लिमिटेड (अंतिम होल्डिंग कंपनी), कंपनी और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों ("स्कीम") के बीच समामेलन की योजना के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। कंपनी ने भारत के मेटोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के साथ योजना प्रस्तत की है और 18 जनवरी, 2021 को अवलोकन पत्र प्राप्त किया है। निदेशक के बोर्ड ने 5 फरवरी 2021 को आयोजित अपनी बैठक में सेबी/एमएसई आई द्वारा सलाह के अनुसार अवलोकन को शामिल करते हुए संशोधित योजना को मंजुरी दी है। अब, कंपनी संबंधित अधिकारियों के साथ आवेदन दायर करेगी। जआरी ग्लोबल लिमिटेड के निदेशक के बोर्ड ने भी 17 जुलाई 2020 के अपने प्रस्ताव की योजना के लिए सहमित प्रदान की है। योजना के अनुसार समामेलन की निर्धारित तिथि 1 अप्रैल, 2020 है।

> हिते एवं कृते बोर्ड गोबिंद शुगर मिल्स लिमिटेड आर एस राघवन प्रबंध निदेशक

स्थानः गुरुग्राम दिनांकः 5 फरवरी, 2021

www.readwhere.com

Chandigarh